

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-26032020-218922  
SG-DL-E-26032020-218922

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2020/फाल्गुन 29, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 415
No. 54]	DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2020/PHALGUNA 29, 1941	[N.C.T.D. No. 415

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 मार्च, 2020

सं. 7(19)/प्रशा. /डब्ल्यूसीडी/2015/28250.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से पूर्व परामर्श के पश्चात् एतद्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:—(i) इन नियमों मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती नियमावली, 2020 कहा जायेगा।  
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर:—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि:—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता:**—ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति:**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा सेवा विभाग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव:**—इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**अनुसूची**

1.	पदनाम	:	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
2.	पदों की संख्या	:	239 *(2020) * परिवर्तन कार्यभार के आधार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	वेतन स्तर-1 (18000-56900/- रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25 वर्ष के बीच '  <b>टीप :</b> आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख डिविजन, लाहौल एवं स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी सब डिविजन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।  रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती के मामले में आयु निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख रोजगार कार्यालय में नाम प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि होगी।  * यदि भर्ती डीएसएसएसबी या किसी अन्य समान भर्ती एजेंसियों के माध्यम से की जाती है, तो उस स्थिति में आयु सीमा 18-27 वर्ष के अनुसार निर्धारित की जा सकती है अन्यथा उसे 18-25 वर्ष तक रखा जा सकता है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष उत्तीर्ण
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं

9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ): 1. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग —अध्यक्ष 2. अपर निदेशक (प्रशा.), महिला एवं बाल विकास विभाग —सदस्य 3. किसी भी दो जिलों के जिला अधिकारी —सदस्य
13.	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश तथा उनके नाम पर,

अनिता भरल, उप-निदेशक (प्रशा.)

## DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 19th March, 2020

**F. No. 7(19)/ADMN/WCD/2015/28250:**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number G.S.R. 840 dated the 13<sup>th</sup> July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Services Department, Government of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Multi Tasking Staff (MTS) in the Department of Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :-

**1. Short title and commencement :-** (i) These rules may be called the 'Multi Tasking Staff' Recruitment Rules, 2020.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

**2. Number of Posts, Classification and level in the pay matrix :-** The number of the said posts, their classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc :-** The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

**4. Disqualification :-** No person-

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Powers to relax :-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving :-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Multi Tasking Staff (MTS).	239* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group – 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Level-1 (Rs. 18000-56900)/-	Not applicable.	Between 18-25 Years. *  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul&Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands & Lakshadweep).  In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.  <b>*If recruitment is made through DSSSB or any other similar recruitment agencies in that case the age limit may be prescribed as 18-27 years otherwise the same may be kept as 18-25 years.</b>	Matriculation or its equivalent pass from recognised Board/University.

Whether age and educational qualifications	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by	In case of recruitment by	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public
--	------------------------------	---	---------------------------	--	-------------------------------------

prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.		promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.		Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	<b>Composition of Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):</b> 1. Director, DWCD - <b>Chairman</b> 2. Addl. Director (Admn.), DWCD - <b>Member</b> 3. District Officers of any two Districts - <b>Member.</b>	Not applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of  
the National Capital Territory of Delhi,

ANITA BHARAL, Dy. Director (Admn.)